



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 3—अप्रैल 9, 2016, शनिवार/चैत्र 14—चैत्र 20, 1938  
No. 8] NEW DELHI, APRIL 3—APRIL 9, 2016, SATURDAY/CHAITRA 14—CHAITRA 20, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

का. नि. आ. 11.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, विदेशी भाषा विद्यालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, विदेशी भाषा विद्यालय में निदेशक, ज्येष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1)-इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, विदेशी भाषा विद्यालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निदेशक	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा

(11)

**प्रोन्नति :-**

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में ऐसे ज्येष्ठ प्राध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. की श्रेणी में पंद्रह वर्ष संयुक्त नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम पांच वर्ष ज्येष्ठ प्राध्यापक के रूप में नियमित सेवा की हो और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से सुसंगत कार्य के विषय या क्षेत्र में रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित या आयोजित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रक्षा मंत्रालय के विदेशी भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली किसी एक विदेशी भाषा में (जो प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी) मास्टर डिग्री; या

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विदेशी भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली किसी एक विदेशी भाषा में (जो प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी) (कम से कम प्रशिक्षु पाठ्यक्रम स्तर) में डिग्री या डिप्लोमा;

(ii) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिन्दी में या हिन्दी या अंग्रेजी से उस विदेशी भाषा में अनुवादक या दुभाषिया के रूप या संबंधित विदेशी भाषा में अध्यापन या अनुसंधान या लेखन में बारह वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय :-**

(i) रक्षा संबंधी मामलों का ज्ञान, जिसके अंतर्गत सैनिक शब्दावली भी है।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विदेशी भाषा में डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी)।

(11)

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य - सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय 3. रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक रूप से संबद्ध - सदस्य संयुक्त सचिव	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ज्येष्ठ प्राध्यापक	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :-**

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे प्राध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से सुसंगत कार्य के विषय या क्षेत्र में रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित या आयोजित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

(13)

**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**

1. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष
2. निदेशक, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य
3. निदेशक, विदेशी भाषा विद्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. प्राध्यापक	13* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.

(5)	(6)
लागू नहीं होता	<p>35 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)</p> <p><b>टिप्पण :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)</p>

(7)	(8)	(9)
<p><b>आवश्यक :-</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विदेशी भाषा (जिसे प्रत्येक भर्ती के समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा) में मास्टर डिग्री ।</p> <p>(ii) संबंधित विदेशी भाषा में अध्यापन या अंग्रेजी या हिन्दी में या विषयन अनुवाद में एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण :-</b> पुस्तों, सिंहली, बर्मी, बहासा इंडोनेशिया, भुटानी (डीजोंखा), तिब्बती, या बुद्धिष्ट दर्शन (जहाँ इस समय कोई भारतीय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्थापित नहीं करते) के संबंध में सुसंगत विद्याशाखा में डिप्लोमा या द्विभाषीकरण धारण करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा यदि वह अंग्रेजी अनुदेशों के माध्यम के रूप में किसी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री रखता हो ।</p> <p><b>वांछनीय :-</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विदेशी भाषा में डॉक्टरेट (पीएचडी) डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(10)
<p><b>सीधी भर्ती द्वारा :</b></p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या</p>

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।  
(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p><b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष</li> <li>निदेशक, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य</li> <li>निदेशक, विदेशी भाषा विद्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य</li> </ol>	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए. 33983/सीएओ/आर-2]

अमर नाथ सिन्हा, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st March, 2016

**S.R.O. 11 .—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, School of Foreign Languages (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Senior Lecturer and Lecturer in the School of Foreign Languages, Ministry of Defence, namely: -

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, School of Foreign Languages (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale** .- The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** .- No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director	01* (2016)  (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group `A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 4, Rs. 37400-67000 plus (Grade pay Rs. 8700)	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Age : No  Educational Qualifications : Yes	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).		



---

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

---

(11)

**Promotion:**

Senior Lecturer in the scale of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600 with ten years regular service in the grade failing which with fifteen years combined regular service in the grades of Senior Lecturer and Lecturer in the scale of Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 out of which at least five years regular service in the grade of Senior Lecturer and have successfully completed training of minimum two weeks, conducted or organised by Defence Headquarter Training Institute, in subject or area of work relevant to duties and responsibilities of the higher post for considering promotion.

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation (including short-term contract):**

Officers under the Central or State Governments or Union territories Administration or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or autonomous Organizations :-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

**Essential :**

- (i) Master's degree in any one of the foreign languages (to be specified at the time of each recruitment) taught at the School of Foreign Languages, Ministry of Defence, from a recognised University.

Or

- (a) Master's degree from a recognised University;
- (b) Degree or Diploma (at least Interpretership Standard) in any of the foreign languages (to be specified at the time of each recruitment) being taught at the School of Foreign Languages from a recognised University or Institution;
- (ii) Twelve years experience as Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or vice-versa or teaching or research or writing in the foreign language concerned.

**Desirable :**

- (i) Knowledge of Defence matters including Military Terminology ;
- (ii) Doctorate degree in foreign language (Ph.D) from a recognized university

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

---

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 01<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.		
(12)				(13)		
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :-</b>				Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).		
1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission			- Chairman		
2.	Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence			- Member		
3.	Joint Secretary Administratively concerned, in the Ministry of Defence			- Member		

  

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Lecturer	02* (2016)  (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 3, Rs. 15600-39100 plus (Grade pay Rs.6600)	Selection	Not applicable

  

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

  

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion :</b> Lecturers in the School of Foreign Languages in the scale of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 with five years regular service in the grade and have successfully completed training of minimum two weeks, conducted or organised by the Defence Headquarter Training Institute, in subject or area of work relevant to duties and responsibilities of the higher post for considering promotion.  <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or	<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of ;</b>  1. Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence  2. Director, Office of the Joint Secretary (Training)	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 01<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

and Chief – Member  
Administrative  
Officer, Ministry of  
Defence  
3. Director,  
School of Foreign  
Languages, – Member  
Ministry of Defence

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Lecturer	13* (2016)  (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band - 3, Rs. 15600- 39100 (Grade pay Rs. 5400)	Not applicable	Not exceeding 35 years.  (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> (i) Master's degree in a foreign language (to be specified at the time of each recruitment) from a recognised University or Institution.  (ii) One year experience in teaching or translation from the foreign language concerned to English or Hindi or vice-versa.  <b>Note :</b> In respect of Pushto, Sinhalese, Burmese, Bahasa Indonesia, Bhutanese (Dzongkha), Tibetan or Buddhist Philosophy (where no Indian University offers PG courses at present) candidates possessing Diploma or Interpretership in the relevant discipline will be considered if they hold Masters Degree in any discipline with English as a medium of Instruction. <b>Desirable :</b> Doctorate degree in foreign languages (Ph.D) from a recognized university  <b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service	Not applicable	One year for direct recruits	By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central or State Governments or Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with three year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department ; and

Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointing on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group `A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)</b>	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of posts.
	1. Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence	– Chairman
	2. Director, Office of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence	– Member
	3. Director, School of Foreign Languages, Ministry of Defence	– Member

[F. No. A/33983/CAO/R-II]

AMAR NATH SINHA, Dy. Chief Administrative Officer

## (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

**का.नि.आ. 12.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पदों के भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2013 में -

(क) नियम 2 में, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों "परिचर बहु-कौशल प्राप्त-III (एएमएस-III)" के स्थान पर, "बहु कार्य कर्मचारिवृंद" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची के स्तंभ (1) में, "एएमएस-III" प्रविष्टि के स्थान पर, "बहु कार्य कर्मचारिवृंद" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/एमटीएस/आरआर/सी/पी/01]

हर्षा रानी, अवर सचिव

**टिप्पण :** तारीख 23 मई 2013 के मूल नियम तारीख 08 जून, 2013 के का.नि.आ.सं. 35 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किए गए थे।

## (Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 14th March, 2016

**S.R.O. 12.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2013.-

(a) in rule 2, for the words figures and brackets "**Attendant Multi-Skilled-III(AMS-III)**" the words "**Multi-Tasking Staff**" shall be substituted;

(b) in the schedule, in column (1), for the entry "AMS-III" the entry "Multi-Tasking Staff" shall be substituted.

[F. No. DHRD/76257/MTS/RRs/C/P/01]

HARSHA RANI, Under Secy.

**Note:** The principal rules dated the 23<sup>rd</sup> May, 2013 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. No. 35 dated the 8<sup>th</sup> June, 2013.

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

**का.नि.आ. 13.**—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा(संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

**एनसीसी निदेशालय उत्तराखण्ड,  
बंगला नं. पी-4, नागनाथ रोड,  
घंघोड़ा कैण्ट, देहरादून- 248141**

[सं. 1(1)/2011-रक्षा (रा.भा. 1)]

अशोक डोंगरे, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 4th April , 2016

**S.R.O. 13.**—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Directorate General of National Cadet Corps more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

**NCC Dte Uttarakhand  
Bungalow No. P-4, Nagnath Road,  
Gunghora Cantt., Dehradun- 248141**

[No. 1(1)/2011-D (OL-1)]  
ASHOK DONGRE, Jt. Secy.